

#### **ROLLATAINERS LIMITED**

**Registered Office:** Plot No. 73-74, Phase-III, Industrial Area, Dharuhera, District Rewari, Haryana-123106 **Tel.:** 01274-243326, 242220

E-mail: cs.rollatainers@gmail.com Website: www.rollatainers.in

CIN: L21014HR1968PLC004844

Ref.No.:RTL/BSE/NSE/2022-23 Date:15<sup>th</sup> November 2022

To,

| The Secretary                      | The Secretary                             |
|------------------------------------|---|
| BSE Limited                        | National Stock Exchange Limited, Exchange |
| Phiroze Jeejeebhoy, Towers Limited | Plaza                                     |
| Dalal Street, Mumbai - 4000 01     | Bandra Kurla Complex, Bandra (E)          |
|                                    | Mumbai - 400 051                          |
| Scrip Code: 502448                 | Symbol: ROLLT                             |

**Sub:** Submission of Newspaper Cuttings Pertaining to Publication of Un-Audited Financial Results (Consolidated and Standalone) for the quarter and Six Months ended on September 30, 2022

Dear Sir, Ma'am

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirements), Regulations, 2015, please find enclosed herewith Newspaper Cuttings Pertaining to Publication of Un-Audited Financial Results (Consolidated and Standalone) for the quarter and six months ended on September 30,2022 published in the newspapers namely Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) on **November 15, 2022.** 

The aforesaid Newspaper Publications are also uploaded on Company's website.

You are requested to kindly take the same on record and oblige.

Thanking You, Yours faithfully,

For Rollatainers Limited

Aditi Jain (Company Secretary and Compliance Officer)

# PM IN BALI FOR G20 SUMMIT



Prime Minister Narendra Modi arrives in Bali for the G20 Summit on Monday

# Global growth and energy security to top Modi's agenda

**FE BUREAU** New Delhi, November 14

#### PRIME MINISTER NARENDRA

Modi on Monday said he will huddle with leaders of the G20 grouping in Bali to find ways to address challenges such as reviving global growth, ensuring food and energy security and handling issues relating to environment, health and digital transformation.

In a statement ahead of his three-day visit to attend the G20 summit in Indonesia, Modi also highlighted India's "unwavering commitment" to jointly address global issues. India's upcoming presidency of the G20 will promote the theme of *Vasudhaiva Kutum*bakam or "One Earth, One Family, One Future", he added.

The summit will likely discuss the Ukraine war and its impact on global inflation, food and energy security and supply chains. Last week, US treasury secretary Janet Yellen alleged that Russia has been using its

#### **COMING UP**

■PM to address | ■ Summit the Indian community in Baliata reception today

to focus on the impact of Ukraine

■ In a statement before leaving for Bali, Modi highlighted 'unwavering commitment' to jointly address global issues

gas supply as a weapon against Europe. "On the sidelines of the G20 Summit, I will meet with Leaders of several other participating countries, and review the progress in India's bilateral relations with them," Modi said in the statement. He will address the Indian community in Bali at

a reception on Tuesday. Indonesian president Joko Widodo will hand over the G20 Presidency to India at the closing ceremony of the Bali Summit. India will officially assume

the G20 Presidency from December 1."I will also extend my personal invitation to G20 Members and other invitees to our G20 Summit next year," Modi

said.The G20 represents around

85% of the global GDP, over

75% of trade, and about two-

thirds of the world population.

The IMF has warned of a possible recession in advanced economies next year. It has projected global growth to decelerate further to just 2.7% in 2023 from 3.2% this year. The WTO expects global trade growth to ease to just 1% in 2023, from 3.5% this year.

The IMF last month slashed its FY23 growth projection for India by 60 basis points from its July forecast to 6.8% but retained its FY24 prediction for the country at 6.1%. Of course, despite the downward revision, India's growth rates for this fiscal and the next would still be way above the agency's projected global economic expansion rates of 3.2% and 2.7%, respectively.

#### **EXPLAINER**

# G20 SUMMIT: A LOT ON THE PLATE

The 17th G20 Heads of State and **Government Summit is being** held in Bali on November 15-16. With Russian President Vladimir Putin choosing to skip the meet, the US-China stand-off and looming global recession, the summit is seen as one of the most strained in the history of the multilateral grouping. Prasanta Sahu takes a look at G20's evolution, the main agenda of the current summit and India's presidency from December



#### How did the G20 come into being?

The G20 or Group of Twenty is a forum comprising 19 advanced and emerging economies and the European Union (EU) striving for international coordination in economic policy. Though it was founded in 1999 in the wake of the Asian financial crisis, it gained in importance with the 2009 summit held in the backdrop of the 2007-08 global financial meltdown. Since 2008, the group has convened at least once a year with summits involving heads of governments/states, as well as finance ministers and central bank governors. While the stated objectives of the grouping is to ensure global financial stability and furtherance of sustainable development, topical issues of the global economy have invariably figured in the discussions, as the last one and half a decade has been tumultuous for the world economy and the global financial system. Its principal function has therefore come to be regarded as crisis-solving.

#### How does the G20 presidency evolve?

The presidency rotates every year among members, with the country that holds the presidency working together with its predecessor and successor, the three together known as Troika, to ensure the continuity. Indonesia took over the presidency from Italy in December 2021 and India will assume the position on December 1, 2022.

85%

G20's share in gross world product (global GDP)

**75%** The group's share in world trade

global growth in the 10 vears to 2021

#### What are the drawbacks of the group and how efficacious has it been?

G20 was an improvement upon the G7 group of rich countries thanks to its embracing of the emerging economies. It did help in mitigating the ripple effects of the financial meltdown in the aftermath of the global financial crisis, but the common resolve has since weakened with national priorities taking precedence. The forum lacks enforcement powers and is also alleged to be undermining multilateral bodies like the IMF, World Bank and the WTO. The G20 has no permanent secretariat and the work is coordinated by G20 leaders' personal representatives, known as sherpas.

indianexpress.com

#### What is the main agenda of the ongoing summit in

**Bali, Indonesia?** At this 17th summit (November 15-16, 2022), G20 leaders are scheduled to deliberate on the Russia-Ukraine war, the simmering tension between the US and China, high global inflation, the coordinated monetary tightening among major central banks, and, of course, the impending "global recession". Food and energy security, and post-Covid health issues, too, are high on the summit's agenda. While the global climate meet is taking place separately in Egypt, the pressing issue of global warming will also be discussed. While several bilateral meetings between the leaders are also being held, the one between US President Joe Biden and Chinese president Xi Jinping on Monday was keenly watched as all countries looked for an agreement between the two on the contours of the global recovery.

#### What are the priorities of India for the current and next G20 summits?

Before emplaning for Bali, Prime Minister Narendra Modi said "he will hold extensive discussions with G20 leaders on key challenges such as reviving global growth, ensuring food and energy security and addressing issues relating to health and digital transformation". Modi said India's G20 Presidency will be grounded in the theme 'Vasudhaiva Kutumbakam' or 'One Earth, One Family, One Future'. Finance minister

Nirmala Sitharaman has recently stressed the need for detailed deliberations in G20 on the "spill-over effect" of the global turmoil, caused by actions of few nations, on emerging and low-income economies. She also listed eight priority areas — including reforms in multilateral institutions, global strategy to regulate cryptocurrencies and food and energy security in the wake of the Ukraine war — for discussions.

# Rollatainers Limited CIN: L21014HR1968PLC004844

Regd. Off.: Plot No. 73-74, Phase- III, Industrial Area, Dharuhera, District- Rewari, Rewari HRi 123106 In Tel: +91-0124-243326.242220 | Email: cs.rollatainers@gmail.com | Website: www.rollatainers.in

#### EXTRACT OF THE STATEMENT OF UN-AUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2022

|            |  |            |              |                             |                             |          |                             |                         |                             |   |            | (                           | Rs. in Lakhs                |                         |
|------------|--|------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---|------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|            |  | STANDALONE |              |                             |                             |          |                             |                         | CONSOLIDATED                |   |            |                             |                             |                         |
| Sr.<br>No. | Particulars  | (          | Quarter Ende | d                           | Half Yea                    | ar Ended | Year Ended                  | C                       | uarter Ended                |   | Half Y     | ear Ended                   | Year Ended                  |                         |
| 1919-1819  | NO.  |            |              | 30.06.2022<br>(Un- Audited) | 30.09.2021<br>(Un- Audited) |          | 30.09.2021<br>(Un- Audited) | 31.03.2022<br>(Audited) | 30.09.2022<br>(Un- Audited) | A A C A A C A C A C A C A C A C A C A C |            | 30.09.2022<br>(Un- Audited) | 30.09.2021<br>(Un- Audited) | 31.03.2022<br>(Audited) |
| 1.         | Total Income from operations   | 20.40      | 10.00        | 22.71                       | 30.40                       | 33.99    | 57.05                       | 36.80                   | 14.40                       | 230.71                                  | 51.20      | 469.79                      | 689.05                      |                         |
| 2.         | Profit/(Loss) before share of profit /(Loss) of associates<br>and joint venture, exceptional items and tax   | (18.24)    | (29.55)      | (46.47)                     | (47.79)                     | (60.48)  | (110.39)                    | (55.39)                 | (207.69)                    | (379.69)                                | (263.08)   | (684.48)                    | (1,265.62)                  |                         |
| 3.         | Net Profit/ (Loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)   | (18.24)    | (29.55)      | (46.47)                     | (47.79)                     | (60.48)  | (110.39)                    | (55.39)                 | (207.69)                    | (412.70)                                | (263.08)   | (860.03)                    | (1,441.40)                  |                         |
| 4.         | Net Profit/ Loss for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)  | (18.24)    | (29.55)      | (204.02)                    | (47.79)                     | (218.03) | (4,993.57)                  | (712.24)                | (1,374.89)                  | (570.24)                                | (2,087.14) | (1,017.58)                  | (5,947.86)                  |                         |
| 5.         | Net Profit for the period after tax from continuing<br>business (after exceptional and/or extraordinary items)                                     | (18.24)    | (29.55)      | (204.02)                    | (47.79)                     | (218.03) | (4,993.57)                  | (712.24)                | (1,374.89)                  | (570.24)                                | (2,087.14) | (1,017.58)                  | (6,917.48)                  |                         |
| 6.         | Total Comprehensive Income for the period (Comprising<br>Profit / (Loss) for the period (after tax) and other<br>Comprehensive Income (after tax)) | (18.24)    | (29.55)      | (204.02)                    | (47.79)                     | (218.03) | (4,993.57)                  | (712.24)                | (1,374.89)                  | (570.24)                                | (2,087.14) | (1,017.58)                  | (3,018.83)                  |                         |
| 7.         | Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 1/-each)   | 2,501.00   | 2,501.00     | 2,501.00                    | 2,501.00                    | 2,501.00 | 2,501.00                    | 2,501.00                | 2,501.00                    | 2,501.00                                | 2,501.00   | 2,501.00                    | 2,501.00                    |                         |
| 8.         | Earnings per Share (Face Value of Re 1/- each) for continuing operations)  |            |              |                             |                             |          |                             |                         |                             |   |            |                             |                             |                         |
|            | (a) Basic  | (0.01)     | (0.01)       | (0.08)                      | (0.02)                      | (0.09)   | (2.00)                      | (0.43)                  | (0.49)                      | (0.21)                                  | (0.75)     | (0.37)                      | (1.20)                      |                         |
|            | (b) Diluted  | (0.01)     | (0.01)       | (0.08)                      | (0.02)                      | (0.09)   | (2.00)                      | (0.43)                  | (0.49)                      | (0.21)                                  | (0.75)     | (0.37)                      | (1.20)                      |                         |

# Notes to financial results:

- 1 The above unaudited financial results have been reviewed and recommended by the Audit Committee on 14th November, 2022 and subsequently have been approved by the Board
- of Directors of the company at their meeting held on 14th November, 2022.
- 2. The Financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards ('Ind AS') prescribed under Section 133 of Companies Act, 2013 read with relevant rules thereunder and in terms of regulations of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended).
- 3. During the year, company has shown expense under the head Exceptional Items as detailed below:

| Particulars                         | Standalone | Consolidated |
|-------------------------------------|------------|--------------|
| i) Diminution in value of Inventory | 0.00       | (1172.98)    |
| ii) Balances written back           | 0.00       | 265.35       |
| iii) Loss on sale of fixed assets   | 0.00       | (802.77)     |
| iv) Loss on sale of inventory       | 0.00       | (113.66)     |
| Total                               |            | (1824.05)    |

- Previous year figures have been regrouped and rearranged wherever necessary to make them comparable with those of current year. The figures for the quarter ended 30th September, 2022 are the balancing figures between the unaudited figures of half year ending 30th September, 2022 and the unaudited published figure upto quarter ended on
- 30th June, 2022 of the relevant financial year.
- The consolidated financial statements include financial statements of the subsidiaries RT Packaging Ltd., JV Rollatainers Toyo Machines Pvt. Ltd. (strike off) and Oliver Engineering Pvt. Ltd. (Company under corporate insolvency resolution process.
- 7. The Company has incurred a net loss of Rs.18.23 lakhs and Rs. 47.78 lakhs for the guarter and period ended September 30, 2022 respectively; and accumulated losses as on September 30, 2022 stand at Rs.12,313.71 lakhs. The Group has incurred a net loss of Rs.55.39 lakhs and Rs. 263.08 lakhs for the guarter and period ended September 30, 2022 respectively; and accumulated losses as on September 30, 2022 stand at Rs. 21,211.88 lakhs. However, these financial results have been prepared on the going concern basis as the management, based on the cash flow projection, is confident on the Company's ability to continue as a going concern for a foreseeable future.
- The statutory dues of TDS and GST amounting to Rs/- 1.96 lacs, and 52.35 lacs respectively as on 30-Sep-22
- SEGMENT INFORMATION: The business activities of the company falls within one operating segment viz. 'Packaging Products' and operates within the country. Hence the disclosure requirement of Indian Accounting Standard 108 "Operating

For Rollatainers Limited

Sd/-**Aarti Jain** (Chairperson)

DIN: 00143244

New Delhi

The Indian EXPRESS
—JOURNALISM OF COURAGE

Inform your opinion with ensation ournalism. S credible over

substance

SE

choo



For the Indian Intelligent. The Indian Express

Place: New Delhi financialexp.epapr.in

Date: 14/11/2022

पंजीकृत एडी / स्पीड पोस्ट उधारकर्ता को 60 दिवसीय सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचन संदर्भ : खाता संख्या 0674008700011369, मैसर्स अलस्ट्रांग इंटरप्राइजेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा। मैसर्स अलस्ट्रांग इंटरप्राइजेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय एफ–35/4, भूतल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र,

अनिष्पादनीय परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हमने पहले ही पत्र दिनांक 01.06.2021 द्वारा उधारकर्ता से उपरोक्त सविधाओं व तहत देय ब्याज और अन्य शुल्कों सहित संपूर्ण बकाया का भुगतान करने की मांग की है/आपको उसे चुकाने का निर्देश दिया है। हमने पत्र

पूर्ण भुगतान होने तक भावी ब्याज तथा एवं अन्य व्ययों के साथ दिनांक 31.10.2022 के अनुसार बैंक को देय राशि **रु. 73,25,66,054.18 (रुपये तिहत्तर करोड़ पच्चीस लाख छियासठ हजार चौव्चन और अट्ठारह पैसे मात्र)** है (यहां इसमें इसके उपरांत "प्रतिभूत ऋण" के रूप में संदर्भित)। उपरोक्त सुविधाओं के तहत बकाया को प्रतिभूत करने के लिए, आपने अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित संपत्तियों / परिसंपत्तियों के संदर्भ

(बैंक गारंटी | 2. लेन नंबर 2, फेज-2, सिडको इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, बारी ब्राह्मणा, जम्मू में स्थित कंपनी की भूमि और कारखाने

के भवन, अधिमापन ८ कनाल, के पट्टाधारक अधिकारों पर प्रथम समानाता शुल्क।

औद्योगिक सम्पति, अधिमापन 0.4078 हेक्टेयर, पर प्रथम समानता शुल्क।

म एतदद्वारा आपको इस सूचना की तिथि से 60 दिवसों (साठ दिवसों) के अंदर पूर्ण भुगतान होने तक संविदात्मक

के साथ रु. 73,25,66,054.18 (रुपये तिहत्तर करोड़ पच्चीस लाख छियासठ हजार चौव्वन और अटठारह पैसे मात्र) की राशि का भगता करने का निर्देश देते हैं। भुगतान करने में चूक होने पर, विधि–व्यवस्था के अंतर्गत उपलब्धानुसार बैंक के अन्य अधिकारों का प्रयोग करने के अतिरिक्त, बैंक वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हिंत प्रवर्तन अधिनियम 2002 (यहां इसमे इसके उपरांत "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 13 (4) के तहत उपलब्धानुसार किसी एक अथवा समस्त शक्तियों का प्रयोग करने का इच्छुक होगा। प्रतिभूत ऋण का भुगतान न किये जाने की स्थिति में बैंक जिस/जिन प्रतिभूत परिसंपत्ति/यों को प्रवर्तित

रसबीआई के साथ समानता के आधार पर संपूर्ण स्टॉक और बही ऋणों सहित संपूर्ण वर्तमान एवं भावी संपूर्ण चालू परिसंपत्तियों पर

. लेन नंबर 2, फेज–2, सिडको इंडरिट्रयल कॉम्प्लेक्स, बारी ब्राह्मणा, जम्मू में स्थित कंपनी की भूमि और कारखाने के भवन, अधिमापन

खाता संख्या २, खसरा १३१, ग्राम–रायपुर, परगना–भगवानपुर, तहसील–रुड़की, जनपद–हरिद्वार में अवस्थित औद्योगिक सम्पति

आईजीसी, फेज-2, सांबा, जम्मू में स्थित कंपनी के भूमि और कारखाने के भवन, अधिमापन 50 कनाल, के पट्टाधारक अधिकार

भूमि खाता खाता संख्या 452, खसरा संख्या 1056, ग्राम—लोनी, जनपद—गाजियाबाद, अधिमापन 0.202 हेक्टेयर, पर विशेष शुल्क खाता संख्या ७४४. खसरा संख्या ११३२. ग्राम-लोनी, जनपद-गाजियाबाद वाली भीन, अधिमापन ०,०७९६ हेक्टेयर, के 1/3वें भाग पर

कृपया ध्यान दें कि उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के अनुसार, आप इस सूचना की प्राप्ति के बाद, उपरोक्त संदर्भित किसी भ जितभुत परिसंपत्ति का बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना विक्रय, पट्टा के माध्यम से अथवा अन्यथा (व्यापार के सामान्य अनुक्रम व

आपको यह भी सुचित किया जाता है कि इस वैधानिक निषेधाज्ञा / प्रतिबंध का कोई भी उल्लंघन, जैसा कि उक्त अधिनियम के तहत

यदि किसी कारणवश, व्यापार के सामान्य अनुक्रम में प्रतिभृत परिसंपत्तियों का विक्रय किया जाता है या उन्हें पट्टे पर दिया जाता है तो विक्रय आय या प्राप्त आय को बैंक में जमा /प्रेषित किया जायेगा। आपको इस तरह की वसली /आय का समचित खाता बनाये

कृपया इस सचना के तहत निर्गत इस मांग का पालन/अनुपालन करें और सभी अप्रिय घटनाओं से बचें। पालन/अनुपालन न कर . की स्थिति में, सभी लागतों और परिणामों के लिए आपको उत्तरदायी ठहराते हुए, आगे की आवश्यक कार्रवाई का सहारा लिया जायेगा \*यह सूचना, डीआरटी / न्यायालय, जैसा भी मामला हो, के समक्ष कानूनी कार्रवाई करनेवाले बैंक पर प्रतिकृल प्रभाव डाले बिना निर्गत की गयी है

एसबीआई के साथ समानता के आधार पर संपूर्ण स्टॉक और बही ऋणों सहित वर्तमान और भविष्य की संप

3. खाता संख्या २, खसरा १३१, ग्राम–रायपुर, परगना–भगवानपुर, तहसील–रुड़की, जनपद–हरिद्वार में अवस्थित

4. आईजीसी, फेज—2, सांबा, जम्मू में स्थित कंपनी के भूमि और कारखाने के भवन, अधिमापन 50 कनाल, के

. भृमि खाता खाता संख्या ४५२, खसरा संख्या १०५६, ग्राम–लोनी, जनपद–गाजियाबाद, अधिमापन ०.२०२ हेक्टेयर,

3. खाता संख्या ७४४, खसरा संख्या ११३२, ग्राम—लोनी, जनपद—गाजियाबाद वाली भूमि, अधिमापन ०.०७९६ हेक्टेयर,

punjabhatianal bank

पंजाब नष्टनम बेंक 🦞

नई दिल्ली-110021

प्राइवेट लिमिटेड (गारंटर)

नई दिल्ली-110021

मैसर्स अलस्ट्रांग इंटरप्राइजेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

एफ-35/4, भूतल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-2,

मैसर्स अलस्ट्रांग इंटरप्राइजेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

75, खिड़की गांव, मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017

एफ-35/4, भूतल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-2,

डब्ल्यू-7ए/12, सैनिक फार्म्स, नई दिल्ली-110062

दिनांक 07.06.2021 द्वारा गारंटी का आह्वान भी किया है।

में प्रतिभूति हित सृजित किया है :

गांव, मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017

मैसर्स अलस्ट्रांग एसीपी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया

श्री पीयूष कुमार गोयल (प्रवर्तक) (गारंटर)

मैसर्स वर्लंड्स विंडो ग्रीन फील्ड्स प्राइवेट लिमिटेड (गारंटर) 75, खिड़की

फेज-2, नई दिल्ली-110021 में स्थित है, ने निम्नलिखित ऋण सुविधाओं प्राप्त की हैं :

चालू परिसंपत्तियों पर दुष्टिबंधक ऋण।

के 1/3वें भाग पर विशेष शुल्क।

करने को इच्छुक है, उनके विवरण निम्नानुसार दिये गये हैं

8 कनाल, के पट्टाधारक अधिकारों पर प्रथम समानाता शल्क।

अधिमापन 0.4078 हेक्टेयर, पर प्रथम समानता शुल्क।

प्रतिभूत परिसंपत्तियों के नाम

पर प्रथम समानता शुल्क।

ग्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

प्रदान किया गया है, एक अपराध है।

अतिरिक्त अन्यानुक्रम में) हस्तांतरण नहीं करेंगे।

प्राथमिक प्रतिभूति

संपार्श्विक प्रतिभृति

पट्टाधारक अधिकारों पर प्रथम समानता शुल्क।

एसएच-12, गामा शॉपिंग सेंटर,

गामा-1, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश, ईमेल : cs8290@pnb.co.in

मैसर्स अलस्ट्रांग इंटरप्राइजेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

ई-40/3, ओखला फेज-2, नई दिल्ली-110020

मैसर्स अलस्ट्रांग इंटरनेशनल एलएलपी (गारंटर)

ई-40/3, ओखला फेज-2, नई दिल्ली-110020

बी-128, प्रथम तल, कालकाजी, नई दिल्ली-110019

जाहर सिंह वाली गली, दत्तपूरा, पंचायती धर्मशाला के

शेष बकाया 73,25,66,054.18

मैसर्स अलस्ट्रांग एसीपी मैन्युफैक्वरिंग इंडिय

श्री नवीन अग्रवाल (निदेशक) (गारंटर

निकट, मोरैना, मध्य प्रदेश-476001

75. खिडकी गांव, मालवीय नगर,

नर्ड दिल्ली-110017

प्राइवेट लिमिटेड (गारंटर)

अचल सम्पत्तियों के बिक्री हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस परिशिष्ट IV-क, (नियम 8(6) का परन्तुक देखें) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु

आम लोगों को और विशेष रूप से उधार लेने वाला और प्रत्याभूति — दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी / प्रभारित है, का कब्जा, प्रतिभूत लेनदार इंडियन बैंक (पूर्व मे – इलाहाबाद बैंक) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को ''जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है'' के आधार पर बकाया राशि की वसूली हेत् नीचे वर्णित दिनांको को बेचा जाएगा।

| <del>ई</del> - | नीलामी मोड के माध्यम से बिक्री हेतु सं  | पत्तियों का विशिष्ट विवरण नीचे दिया गया है:   |                |   |  |   |  |                                |   |
|----------------|---|---|----------------|---|--|---|--|--------------------------------|---|
| क्र.<br>सं.    | उधारकर्ता / पार्टनर्स / प्रोपराईटर /<br>गारंटर / बंधककर्ता /<br>निदेशक दृष्टिबंधक / कानूनी<br>उत्तराधिकारी का नाम   | अचल / चल<br>सम्पत्तियों का विवरण  | सम्पत्ति आईडी  | प्रत्याभूत ऋण<br>की राशि  | आरक्षित मूल्य<br>धरोहर जमा राशि<br>न्यूनतम बोली<br>वृद्धि राशि | संपत्ति और<br>कागजात के<br>निरीक्षण हेतु<br>तिथि और<br>समय      | ई—नीलामी<br>की तिथि<br>एवं समय   | प्राधिकृत<br>अधिकारी<br>का नाम | संपत्ति पर भार<br>का विवरण,<br>यदि कोई ज्ञात/<br>ज्ञात नहीं |
| 1              | पा लि 2 श्री वीर सिंह जारवड पत्र  | साम्यिक बंधक रिहायशी मकान प्लॉट नं. 33, 34, 35, 36 रैक्ट नं. 85, किला नं. 20/1(7-0),1(8-0), Rect No. 89, Killa No. 1(8-0) मंशा ग्रीन रिहायशी कॉम्पलैक्स, मौजा और रेवेन्यू ईस्टेट, गाँव औरंगाबाद, तहसील—होडल, पलवल, हरियाणा में स्थित, यह सम्पत्ति श्रीमती देवकी रानी पत्नी वीर सिंह जाखड़ के नाम पर है। (क्षेत्रफल 4637 वर्ग गज)  |                | रु. 4,23,17,327/-<br>दिनांक 25.02.2020<br>तक और साथ में<br>भविष्य का ब्याज, अन्य<br>प्रभार इत्यादि पूर्ण<br>चुकौती की तिथि तक | ₹. 848.00 लाख<br>₹. 84.80 लाख<br>₹. 0.25 लाख                   | 21-11-2022<br>पूर्वाह 10.00<br>बजे से<br>अपॉड 05.00<br>बजे तक   | 29.11.2022<br>को पूर्वाङ 11.00<br>बजे से अर्पाइ<br>05.00 बजे तक<br>साथ में प्रत्येक<br>10 मिनट<br>का असीमित<br>विस्तार | रूपेश<br>कुमार                 | बैंक को ज्ञात नहीं  |
| 2              | सोसाइटी, 2. श्री वीर सिंह पुत्र रिशाल<br>सिंह जाखड़, 3. श्रीमती देवकी रानी पत्नी<br>वीर सिंह जाखड़, 4. श्री विकास पुत्र वीर<br>सिंह जाखड़, 5. सुश्री दीप पुत्र वीर सिंह<br>जाखड़, 6. सुश्री मधु पुत्र वीर सिंह<br>जाखड़, 7. श्री योगेंद्र पुत्र चरण सिंह<br>जाखड़, 8. श्री परविंदर पुत्र चरण सिंह | (क्षत्रफल 10 मारला)   |                | रु. 4,00,00,000/-<br>दिनांक 30.09.2019<br>तक और साथ में<br>भविष्य का ब्याज, अन्य<br>प्रभार इत्यादि पूर्ण<br>चुकौती की तिथि तक | ₹. 60.75 लाख<br>₹. 6.07 लाख<br>₹. 0.25 लाख                     | 21-11-2022<br>पूर्वाइ 10.00<br>बजे से<br>अर्पाइ 05.00<br>बजे तक | 29.11.2022<br>को पूर्वाइ 11.00<br>बजे से अपीह<br>05.00 बजे तक<br>साथ में प्रत्येक<br>10 मिनट<br>का असीमित<br>विस्तार   | रूपेश<br>कुमार                 | बैंक को झात नहीं  |
|                | जाखड, ८. श्रीमती मीनू पत्नी योगेंद्र सिंह,<br>10. श्रीमती अमिता पत्नी परविंदर सिंह<br>(शाखा: पलवल)  | सम्पत्ति नं. 2: साम्यिक बंधक माउंट लिटेरा जी<br>रकूल, जोकि व्यवसायिक भूमि एवं भवन बिक्री<br>प्रमाण दिनांकित 17.05.2018, रैक्ट नं. 15/1<br>और 25 के अंतर्गत, होटल मिडवे के पीछे, दिल्ली<br>मधुरा रोड, मौज़ा, धोलागढ़, फूल विहार, सावल<br>विहार, पलवल—121102 में रिधत, यह सम्पत्ति<br>मैसर्स जाखड़ एजुकेशनल एंड वेलफेयर<br>सोसाइटी के नाम पर है। (क्षेत्रफल 2374.50 वर्ग<br>गज) |                |   | ₹. 550.00 लाख<br>₹. 55.00 लाख<br>₹. 0.25 लाख                   | 29-11-2022<br>पूर्वाह 10.00<br>बजे से<br>अपिंह 05.00<br>बजे तक  | 14.12.2022<br>को पूर्वाह 11.00<br>बजे से अपींह<br>05.00 बजे तक<br>साथ में प्रत्येक<br>10 मिनट<br>का असीमित<br>विस्तार  | रूपेश<br>कुमार                 | बैंक को ज्ञात नहीं  |
| 3              | अनिल कुमार पुत्र उदय सिंह 3. श्री   | रिहयशी मकान नं. 119-बी, 5/160 शेयर<br>खसरा नं. 142 में शामिल, किला नं. 22(8-0)<br>कुल क्षेत्रफल 8 कनाल 0 मारला में से, न्यू बस्ती<br>अम्बेडकर पार्क के पास, सालागढ़, पलवल में<br>स्थित, यह सम्पत्ति श्री उदय सिंह पुत्र किशन<br>लाल के नाम पर है। (क्षेत्रफल 150 वर्ग गज)   |                | रु. 13,36,339/- दिनांक<br>04.12.2018 तक और<br>साथ में भविष्य का<br>व्याज, अन्य प्रभार<br>इत्यादि पूर्ण चुकौती<br>की तिथि तक   | ₹. 16.20 लाख<br>₹. 1.62 लाख<br>₹. 0.25 लाख                     | 21-11-2022<br>पूर्वाह 10.00<br>बजे से<br>अर्पाह 05.00<br>बजे तक | 29.11.2022<br>को पूर्वाह 11.00<br>बजे से अपीह<br>05.00 बजे तक<br>साथ में प्रत्येक<br>10 मिनट<br>का असीमित<br>विस्तार   | प्रवीन कुमार                   | बैंक को ज्ञात नही   |
| 4              | शोणक  | व्यवसायिक सम्पत्ति नं. 432/1, प्लॉट, नं. 13,<br>वार्ड नं. 28, लक्ष्य टॉवर, सुभाष नगर, राज<br>टॉकिज के पास, दिल्ली रोड़, रोहतक में स्थित,<br>यह सम्पत्ति श्री रणबीर सिंह सोनक पुत्र टी आर<br>सोनक और श्रीमती बबीता सोनक पत्नी श्री<br>रणबीर सिंह सोनक के नाम पर है। (क्षेत्रफल<br>125.25 वर्ग गज)  |                | रु. 1,37,80,744/- दिनांक 04.12.2018 तक और साथ में भविष्य का ब्याज, अन्य प्रभार इत्यादि पूर्ण चुकौती की तिथि तक                | 1. 330.00 ene  | 21-11-2022<br>पूर्वाह 10.00<br>बजे से<br>अपॉड 05.00<br>बजे तक   |  | प्रवीन कुमार                   | बैंक को ज्ञात नहीं  |
| 5              | <ol> <li>श्री फिरोज खान</li> <li>श्रीमती फरीदा पत्नी फिरोज खान</li> <li>(शाखा:- उद्योग विहार)</li> </ol>  | रिहायशी मकान जोकि भूतल, मकान नं. जी-45,<br>एग्जीक्यूटिव रेजीडेंसी फ्लोर रकीम, जी ब्लॉक,<br>सुशांत लोक-11, केल प्रेप स्कूल के पास,<br>गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित, यह सम्पत्ति फरीदा<br>खान के नाम पर है। (क्षेत्रफल 139.14 वर्ग मी.)   |                | रु. 85,41,281/- दिनांक<br>04.12.2018 तक और<br>साथ में भविष्य का<br>ब्याज, अन्य प्रमार<br>इत्यादि पूर्ण चुकौती<br>की तिथि तक   | 1. 100.00 enca   | 29-11-2022<br>पूर्वाह 10.00<br>बजे से<br>अर्पाङ 05.00<br>बजे तक | 14.12.2022<br>को पूर्वाह 11.00<br>बजे से अर्पाइ<br>05.00 बजे तक<br>साथ में प्रत्येक<br>10 मिनट<br>का असीमित<br>विस्तार |                                | बैंक को ज्ञात नहीं  |
| 6              | <ol> <li>मैसर्स हरे कृष्णा इंडस्ट्रीज</li> <li>श्री सुबोध कुमार पुत्र तारा चंद सैनी</li> <li>श्री राकेश कुमार पुत्र तारा चंद सैनी</li> <li>(शाखाः शिवाजी कॉलोनी)</li> </ol>   | रिहायशी मकान जोकि मकान नं. 1344/1,<br>प्लॉट नं. 16 मिन का वह समस्त भाग एवं अंश<br>जिसमें खसरा नं. 490/15005/513 मौजा —<br>रोहतक, बाहु जमालपुर रोड, रोहतक, हरियाणा में<br>स्थित, यह सम्पत्ति श्री सुबोध कुमार पुत्र तारा चंद<br>के नाम पर है। (क्षेत्रफल 166.66 वर्ग गज)   | IDIB3017199266 | रु. 23,21,573.28<br>दिनांक 04.12.2018<br>तक और साथ में<br>भविष्य का ब्याज, अन्य<br>प्रभार इत्यादि पूर्ण<br>चुकाती की तिथि तक  | ₹. 42.61 लाख<br>₹. 4.26 लाख<br>₹. 0.25 लाख                     | 29-11-2022<br>पूर्वाङ 10.00<br>बजे से<br>अर्पाङ 05.00<br>बजे तक | 14.12.2022<br>को पूर्वाह 11.00<br>बजे से अपीह<br>05.00 बजे तक<br>साथ में प्रत्येक<br>10 मिनट<br>का असीमित<br>विस्तार   |                                | बैंक को ज्ञात नहीं  |

अधिक जानकारी और नियम एवं शर्ते : 1 श्री प्रवीन कुमार मुख्य प्रबंधक (मो. 9988359909)

2 श्री मुकेश जांगिड, वरिष्ठ प्रबंधक (मो. 9829743273)

1. संपत्ति विवरण और संपत्ति की तस्वीर और नीलामी के नियम और शर्तों के लिए कृपया https://ibapi.in देखें। 2. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे वेबसाइट https://ibapi.in and www.mstcecommerce.com में संपत्ति की खोज करते समय ऊपर उल्लिखित संपत्ति आईडी नं. का उपयोग करें।



\*हमारे पास अन्य प्रतिभृत परिसंपत्तियों को प्रवर्तित करने के अधिकार सुरक्षित हैं।

# **CLASSIFIED AD DEPOT (CAD)**

**Book classified ads at your nearest Express Group's authorised Classified Ad Depots** 

# EAST

PATPARGANJ: CHAVI ADVERTISERS, Ph.: 9899701024, 22090987, 22235837, **PREET VIHAR**: AD BRIDGE COMMU-NICATION, Ph.: 9810029747, 42421234, 22017210, **SHAKARPUR:** PARICHAY ADVERTISING & MARKETING, Ph.: 9350309890, 22519890, 22549890

# WEST

JANAKPURI: TRIMURTI ADVERTISERS. Ph.: 9810234206. 25530307, KAROL BAGH (REGHARPURA): K R ADVERTIS-ERS, Ph.: 9810316618, 9310316618, 41547697, KARAM-**PURA:** GMJ ADVERTISING & MARKETING PVT. LTD., Ph.: 9310333777, 9211333777, 9810883377, **NEW MOTI** NAGAR: MITTAL ADVERTISING, Ph.: 25178183, 9810538183, 9555945923, **MOTI NAGAR:** UMA ADVER-TISERS, Ph.: 9312272149, 8800276797, RAMESH NAGAR: POSITIVE ADS, Ph.: 9891195327, 9310006777, 65418908, TILAK NAGAR: SHIVA ADVERTISERS, Ph.: 9891461543, 25980670, 20518836, VIKAS PURI: AAKAR ADVT, MEDIA Ph.: 9810401352, 9015907873, 9268796133

# CENTRAL

CHANDNI CHOWK: RAMNIWAS ADVERTISING & MARKET-ING, Ph.: 9810145272, 23912577, 23928577, CONNAUGHT PLACE: HARI OM ADVERTISING COMPANY Ph.: 9811555181, 43751196

# NORTH

TIS HAZARI COURT : SAI ADVERTISING, Ph.: 9811117748 KINGWAY CAMP : SHAGUN ADVERTISING. Ph.: 9818505505, 27458589, **PATEL CHEST (OPP. MORRIS** NAGAR POLICE STATION): MAHAN ADVERTISING & MAR-KETING, Ph.: 9350304609, 7042590693, PITAMPURA (PRASHANT VIHAR) : PAAVAN ADVERTISER Ph.: 9311564460, 9311288839, 47057929

# SOUTH

CHATTARPUR: A & M MEDIA ADVERTISING, Ph.: 9811602901, 65181100, 26301008, **KALKAJI** : ADWIN ADVERTISING, Ph.: 9811111825, 41605556, 26462690, MALVIYA NAGAR : POOJA ADVERTISING & MARKETING SERVICE, Ph.: 9891081700, 24331091, 46568866, YUSUF SARAI: TANEJA ADVERTISEMENT & MARKETING Ph.: 9810843218, 26561814, 26510090

#### NCR

FARIDABAD (NEELAM FLYOVER) : AID TIME (INDIA) ADVERTISING, Ph.: 9811195834, 0129-2412798, 2434654, FARIDABAD (NIT, KALYAN SINGH CHOWK) : PULSE ADVERTISING, Ph.: 9818078183, 9811502088, 0129-4166498, FARIDABAD: SURAJ ADVERTISING & MARKET-ING, Ph.: 9810680954, 9953526681, GURGAON: SAMBOD-HI MEDIA PVT. LTD., Ph.: 0124-4065447, 9711277174. 9910633399, GURGAON: AD MEDIA ADVERTISING & PR, Ph.: 9873804580, NOIDA (SEC. 29): RDX ADVERTISING, Ph.: 9899268321, 0120-4315917, NOIDA (SEC. 65): SRI SAI MEDIA, Ph.: 0120-4216117, NOIDA (SEC. 58): JAI LAKSHMI ADVERTISERS, Ph.: 9873807457, 9911911719 GHAZIABAD (HAPUR ROAD TIRAHA, NR GURUDWARA): TIRUPATI BALAJI ADVERTISING & MARKETING, Ph.: 9818373200, 8130640000, 0120-4561000

# **EDUCATION (IAS & PMT ACADEMIES)**

FRIENDS PUBLICITY SERVICE 23287653, 23276901, 9212008155

For CAD enquiries please contact : **ROHIT JOSHI** 9818505947, **ABHINAV GUPTA** 9910035901 For booking classified ads, please contact 011-23702148, 0120-6651215, E-mail : delhi.classifieds@expressindia.com

# Rollatainers Limited CIN: L21014HR1968PLC004844

Regd. Off.: Plot No. 73-74, Phase- III, Industrial Area, Dharuhera, District- Rewari, Rewari HRi 123106 In Tel: +91-0124-243326.242220 | Email: cs.rollatainers@gmail.com | Website: www.rollatainers.in

#### EXTRACT OF THE STATEMENT OF UN-AUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2022

| ,             |            | Particulars  | STANDALONE    |                             |                             |                             |          |                         | CONSOLIDATED                |                             |                 |                             |                             |                         |
|---------------|------------|--|---------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| ,             | Sr.<br>No. |  | Quarter Ended |                             |                             | Half Year Ended Y           |          | Year Ended              | fear Ended Quarter Ended    |                             | Half Year Ended |                             | ear Ended                   | Year Ended              |
|               |            |  |               | 30.06.2022<br>(Un- Audited) | 30.09.2021<br>(Un- Audited) | 30.09.2022<br>(Un- Audited) |          | 31.03.2022<br>(Audited) | 30.09.2022<br>(Un- Audited) | 30.06.2022<br>(Un- Audited) |                 | 30.09.2022<br>(Un- Audited) | 30.09.2021<br>(Un- Audited) | 31.03.2022<br>(Audited) |
| ,             | 1.         | Total Income from operations   | 20.40         | 10.00                       | 22.71                       | 30.40                       | 33.99    | 57.05                   | 36.80                       | 14.40                       | 230.71          | 51.20                       | 469.79                      | 689.05                  |
|               | 2.         | Profit/(Loss) before share of profit /(Loss) of associates<br>and joint venture, exceptional items and tax   | (18.24)       | (29.55)                     | (46.47)                     | (47.79)                     | (60.48)  | (110.39)                | (55.39)                     | (207.69)                    | (379.69)        | (263.08)                    | (684.48)                    | (1,265.62)              |
| <b>!</b><br>, | 3.         | Net Profit/ (Loss) for the period (before tax, exceptional<br>and/or extraordinary items)  | (18.24)       | (29.55)                     | (46.47)                     | (47.79)                     | (60.48)  | (110.39)                | (55.39)                     | (207.69)                    | (412.70)        | (263.08)                    | (860.03)                    | (1,441.40)              |
|               | 4.         | Net Profit/ Loss for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)  | (18.24)       | (29.55)                     | (204.02)                    | (47.79)                     | (218.03) | (4,993.57)              | (712.24)                    | (1,374.89)                  | (570.24)        | (2,087.14)                  | (1,017.58)                  | (5,947.86)              |
| ,             | 5.         | Net Profit for the period after tax from continuing<br>business (after exceptional and/or extraordinary items)                                     | (18.24)       | (29.55)                     | (204.02)                    | (47.79)                     | (218.03) | (4,993.57)              | (712.24)                    | (1,374.89)                  | (570.24)        | (2,087.14)                  | (1,017.58)                  | (6,917.48)              |
|               | 6.         | Total Comprehensive Income for the period (Comprising<br>Profit / (Loss) for the period (after tax) and other<br>Comprehensive Income (after tax)) | (18.24)       | (29.55)                     | (204.02)                    | (47.79)                     | (218.03) | (4,993.57)              | (712.24)                    | (1,374.89)                  | (570.24)        | (2,087.14)                  | (1,017.58)                  | (3,018.83)              |
| .   8         | 7.         | Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 1/-each)   | 2,501.00      | 2,501.00                    | 2,501.00                    | 2,501.00                    | 2,501.00 | 2,501.00                | 2,501.00                    | 2,501.00                    | 2,501.00        | 2,501.00                    | 2,501.00                    | 2,501.00                |
| 23            | 8.         | Earnings per Share (Face Value of Re 1/- each) for continuing operations)  | 0.230         |                             | 3                           | 3                           | 000000   |                         |                             |                             |                 |                             |                             |                         |
| -             |            | (a) Basic  | (0.01)        | (0.01)                      | (0.08)                      | (0.02)                      | (0.09)   | (2.00)                  | (0.43)                      | (0.49)                      | (0.21)          | (0.75)                      | (0.37)                      | (1.20)                  |
| :    ,        |            | (b) Diluted  | (0.01)        | (0.01)                      | (0.08)                      | (0.02)                      | (0.09)   | (2.00)                  | (0.43)                      | (0.49)                      | (0.21)          | (0.75)                      | (0.37)                      | (1.20)                  |

# Notes to financial results:

कृते पंजाब नैशनल बैंक

मुख्य प्रबंधक

प्राधिकृत अधिकारी

- 1 The above unaudited financial results have been reviewed and recommended by the Audit Committee on 14th November, 2022 and subsequently have been approved by the Board of Directors of the company at their meeting held on 14th November, 2022.
- 2. The Financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards ('Ind AS') prescribed under Section 133 of Companies Act, 2013 read with relevant rules thereunder and in terms of regulations of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended).

3. During the year, company has shown expense under the head Exceptional Items as detailed below:

| Particulars                         | Standalone | Consolidated |
|-------------------------------------|------------|--------------|
| i) Diminution in value of Inventory | 0.00       | (1172.98)    |
| ii) Balances written back           | 0.00       | 265.35       |
| iii) Loss on sale of fixed assets   | 0.00       | (802.77)     |
| iv) Loss on sale of inventory       | 0.00       | (113.66)     |
| Total                               |            | (1824.05)    |

दिनांक : 14.11.2022, स्थान : गुरूग्राम, हरियाणा

- Previous year figures have been regrouped and rearranged wherever necessary to make them comparable with those of current year.
- 5. The figures for the quarter ended 30th September, 2022 are the balancing figures between the unaudited figures of half year ending 30th September, 2022 and the unaudited published figure upto quarter ended on 30th June, 2022 of the relevant financial year.
- 6. The consolidated financial statements include financial statements of the subsidiaries RT Packaging Ltd., JV Rollatainers Toyo Machines Pvt. Ltd. (strike off) and Oliver Engineering Pvt. Ltd. (Company under corporate insolvency resolution process.
- 7. The Company has incurred a net loss of Rs.18.23 lakhs and Rs. 47.78 lakhs for the quarter and period ended September 30, 2022 respectively; and accumulated losses as on September 30, 2022 stand at Rs.12,313.71 lakhs. The Group has incurred a net loss of Rs.55.39 lakhs and Rs. 263.08 lakhs for the guarter and period ended September 30, 2022 respectively; and accumulated losses as on September 30, 2022 stand at Rs. 21,211.88 lakhs. However, these financial results have been prepared on the going concern basis as the management, based on the cash flow projection, is confident on the Company's ability to
- continue as a going concern for a foreseeable future. 8. The statutory dues of TDS and GST amounting to Rs/- 1.96 lacs, and 52.35 lacs respectively as on 30-Sep-22. SEGMENT INFORMATION: The business activities of the company falls within one operating segment viz. 'Packaging Products' and operates within the country. Hence the disclosure requirement of Indian

For Rollatainers Limited Sd/-

**Aarti Jain** (Chairperson)

प्राधिकृत अधिकारी, इंडियन बैंक

(Rs. in Lakhs)

Date: 14/11/2022 Place: New Delhi

Accounting Standard 108 "Operating





